

ता: 16.10.2019

समय: ०३ घंटे

कुल अंक: १००

सूचना: १) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- प्र.१. प्रश्न निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए (२७)
- अ) दीपक दिया तेल भरी बाती दई अधट्ट।
पूरा किया बिसाहूणाँ बहुरि न आँवौ हट्ट।।
बलिहारी गुर आपणै धौँ हाड़ी कै बार
जिनि मनिष तैं देवता, करत न लागी बारा।
अथवा
- ब) पिता डाकखाने में चिट्ठी का इन्तजार करके
लौटते हैं हांत-पाँव में
दर्द की शिकायत के साथ
रात में जब घर काँपता है
पिता सोचते हैं जब मैं नहीं हुँगा
क्या होगा इस घर का।
- क) आततायियों का शोणित, लेकिन, हम भी पीते हैं
मुख में वेद पीट पर तरकस, कर में कठिन कुठार
सावधान ! ले रहा परशुधर फिरनवीन अवतार।
अथवा
- ड) नदकना है तुझे झण्डा उड़ा केवल पहाड़ों पर,
विजय पानी है तुझको चाँद-सूरज पर सितारों पर
वधु रहती है जहाँ नरवीर की तलवारवालों की;
जर्मी वह इस जरा-से आसमाँ के पार है साथी।
- च) बड़े-बड़े जंगलों में भी नहीं मिला,
और एक खुशी
कुछ-कुछ सुकरात की तरह
कि इतनी ढेरसी चीजें
जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं।
अथवा
- छ) गलत-से-गलत वक्त में भी
सही-से-सही बात काही जा सकती है।
हम थोड़ी देर के लिए
स्थगित कर सकते हैं युद्ध

- प्र.२) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (३६)
- I) महाकवि सूरदास जी की सगुण भक्ति सौदाहरण स्पष्ट कीजिए-
अथवा
- II) 'एक छोटासा अनुरोध' कविता कृषक वर्ग के प्रति संवेदना का चित्रण है इस कथन को स्पष्ट कीजिए-
- III) 'परशुराम की प्रतीक्षा' कविता की प्रतिकात्मकता स्पष्ट कीजिए-
अथवा
- IV) लोहे के मर्द कविता में कवि ने कौनसा संदेश दिया है?
- V) 'घर रहेंगे' कविता का आशय स्पष्ट कीजिए-
अथवा
- VI) 'अन्तिम ऊंचाई' कविता जीवन की नश्वरता का मार्मिक चित्रण करती है इस कथन को स्पष्ट कीजिए-
- प्र.३) निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। (१२)
- प) 'आजकल लड़ाई का जमाना है' कविता युद्ध से उत्पन्न सामाजिक मानस का मार्मिक चित्रण करती है, स्पष्ट कीजिए-
- फ) 'आज कसौटी पर गांधी की आग है' कविता की प्रतिकात्मकता स्पष्ट कीजिए-
- म) 'घर रहेंगे' कविता का आशय स्पष्ट कीजिए-
- प्र.४) टिप्पणियाँ लिखिए। (१५)
- i) संत कबीरदास
अथवा
- ii) तुलसीदास जी के काव्य में वर्णित राम का वनवास गमन
- iii) 'समर शेष है' शीर्षक की सार्थकता
अथवा
- iv) 'हिम्मत की रौशनी' में हिम्मत की परिभाषा
- v) 'क्या वह नहीं होगा' कविता में वर्णित अभिलाषाएँ
अथवा
- vi) 'स्पष्टीकरण' कविता का आशय

प्र.५)

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। (सभी प्रश्न अनिवार्य)

(१०)

- १) संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है?
- २) रीतिकाल का प्रारंभ किस शतक से माना जाता है?
- ३) 'रामचरितमानस' किस कवि की रचना है?
- ४) कवि बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम लिखिए-
- ५) कवि दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रपट हुआ है?
- ६) 'लोहे के मर्द' कविता में कवि सैनिकों को कौनसी चीज देने का आवाहन करता है?
- ७) 'समर शेष है' कविता के रचनाकर का नाम लिखिए-
- ८) कवि कुँवरनारायण किस युग के कवि रहे है?
- ९) 'सरकारी कोयल' यह संबोधन कवि ने किसे दिया है?
- १०) 'घर रहेंगे' कविता के कवि कौन है?
